



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 14.06.2022

1-थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित व डकैती की घटना करने वाले फिरदौस गैंग का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 13/06/2022 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 02/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित व डकैती की घटना करने वाले फिरदौस गैंग का सक्रिय सदस्य जीशान पुत्र फरियाद निवासी ग्राम नहाल, थाना मसूरी, जिला गाजियाबाद को थाना क्षेत्र के भूडा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा .315 बोर कारतूस बरामद किये गये है।

### अभियुक्त का विवरण:

जीशान पुत्र फरियाद निवासी ग्राम नहाल, थाना मसूरी, जिला गाजियाबाद

### पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0- 02/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0-521/21 धारा 395/412 भादवि थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0सं0-249/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर

### बरामदगी का विवरण:

एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर



## #थाना सेक्टर 113 पुलिस द्वारा गुमशुदा हुये 03 वर्षीय बच्चे को मिलाया उसके परिजनों से।

दिनांक 14.06.2022 को थाना सेक्टर 113 पुलिस को गुमशुदा हुआ 03 वर्षीय बच्चा सेक्टर 78 में घूमता हुआ मिला। पुलिस द्वारा बच्चे के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो मामूल हुआ कि बच्चा खेलते हुए घर से निकल आया है और रास्ता भटक गया है। पीसीआर/पीआरवी द्वारा बच्चे के माता पिता के बारे में जानकारी कर बच्चे को उनके सुपुर्द किया गया। बच्चे को पाकर परिजनों के चेहरे खिल उठे और उनके द्वारा गौतमबुद्धनगर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार सभी जोन के डीसीपी, सभी एडीसीपी के नेतृत्व में सभी एसीपी व थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च करते हुए मेट्रो स्टेशन, मॉल, मार्केट, सर्राफा बाजार व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया एवं संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों को चेक किया गया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार चलाए जा रहे "ड्रंकन ड्राइविंग" अभियान के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 455 व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

कमिश्नरट में कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से गौतमबुद्धनगर पुलिस लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है, जनसंवाद के माध्यम से नागरिकों को आपसी सौहार्द बनाए रखने के संबंध में अपील की जा रही है।

दिनांक 14/06/2022 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार सभी जोन के डीसीपी, सभी एडीसीपी के नेतृत्व में सभी एसीपी व थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च करते हुए मेट्रो स्टेशन, मॉल, मार्केट, सर्राफा बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों व मुख्य चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया एवं संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों को चेक किया गया। उनके द्वारा मेट्रो स्टेशन, मॉल, मार्केट, सर्राफा बाजार व भीड़भाड़ वाले स्थानों सुरक्षा व्यवस्था व सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया गया और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पैदल मार्च के दौरान संदिग्ध लोगों/वाहनों की चेकिंग की गई व "ड्रंकन ड्राइविंग" अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों को ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेक किया गया एवं नियमों का पालन ना करने वाले लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई गई। पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार दिनांक 13.06.2022 से सभी जोन में "ड्रंकन ड्राइविंग" अभियान जारी है और अभी तक 155 व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। आज उक्त अभियान के अंतर्गत 455 व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है जिनमें नोएडा जोन में 181 व्यक्तियों के विरुद्ध, सेंट्रल जोन में 224 व्यक्तियों के विरुद्ध, ग्रेटर नोएडा जोन में 50 व्यक्तियों के नियमानुसार चालान किये गए हैं।

पैदल गस्त एरिया डॉमिनेशन के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा आमजन से वार्ता करते हुये शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की अपील भी की गयी तथा अफवाहों या भड़काऊ पोस्ट आदि से दूरी बनाने व ऐसे असामाजिक तत्व जो इस प्रकार के कृत्य कर आपसी सौहार्द को क्षति पहुंचा रहे हैं उनके बारे में तत्काल पुलिस को सूचित करने के लिए भी कहा गया।



**#शासन द्वारा यातायात सुरक्षा/सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्री आलोक सिंह के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त नोएडा के निकट पर्यवेक्षण में यातायात सुरक्षा/सड़क दुर्घटनाओं को लेकर यातायात/स्थानीय पुलिस के सहयोग से आशाएं एक उम्मीद नाम के एनजीओं से जुड़े युवाओं के द्वारा सेक्टर 37 में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर आमजन को जागरूक किया गया।**

शासन द्वारा यातायात सुरक्षा/सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त नोएडा के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 14.06.2022 को यातायात/स्थानीय पुलिस के सहयोग से आशाएं एक उम्मीद नाम के एनजीओं से जुड़े युवाओं के द्वारा सेक्टर 37 में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर आमजन को जागरूक किया गया। नाटक के माध्यम से लोगों को समझाया गया कि किस प्रकार से यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए जिससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोका एवं सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उक्त किये गये नुक्कड़ नाटक के दौरान काफी संख्या में आम लोगों द्वारा इकट्ठा होकर यातायात के नियमों को समझा।

गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं और स्थानीय नागरिकों ने भी लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुलिस व युवाओं की इस संयुक्त पहल की राहगीरों और स्थानीय लोगों ने सराहना भी की।

